

ET-5170 Series ET-5150 Series L6490 Series L6460 Series



EN Start Here
TC 安裝說明

HI यहाँ आरंभ करें
MN Энд эхлэ



© 2020 Seiko Epson Corporation
Printed in XXXXXX

Setup / 設定 / सेटअप / Тохируулга

Read This First

The ink for this printer must be handled carefully. Ink may splatter when the ink tanks are being filled or refilled with ink. If ink gets on your clothes or belongings, it may not come off.

請先閱讀本說明

本印表機的墨水必須小心處理。在大容量墨水槽中裝填或填充墨水時，墨水可能會濺出。如果墨水濺到您的衣物或物品上，可能無法清除乾淨。

पहले इसे पढ़ें

इस प्रिंटर के लिए इंक को सावधानीपूर्वक भरा जाना चाहिए। इंक टैंकों को भरते या रीफिल करते वक़्त इंक फैल सकता है। यदि इंक आपके कपड़ों या सामान पर लग जाती है, तो हो सकता है कि यह मुश्किल से छूटे।

Үүнийг эхлээд уншина уу

Энэ принтерийн бэхтэй болгоомжтой харьцах ёстой. Бэхний савыг цэнэглэх эсвэл дахин цэнэглэх үед бэх асгарч болзошгүй. Хэрвээ бэх таны хувцас юмуу эд зүйлс дээр асгарвал, арилахгүй байж магадгүй.

See this guide or Epson video guides for printer setup instructions.

請參考本說明或 Epson 影片說明，了解印表機安裝指示。

प्रिंटर के सेटअप निर्देशों के लिए यह मार्गदर्शिका या Epson वीडियो मार्गदर्शिका देखें।

Принтерийн тохируулах зааврыг, энэхүү гарын авлага эсвэл Epson видео гарын авлагаас үзнэ үү.



<http://epson.sn>

The initial ink bottles will be partly used to charge the print head. These bottles may print fewer pages compared to subsequent ink bottles.

初始墨水瓶中會有部分墨水用於印字頭墨水設定。這些墨水瓶列印的頁數可能少於隨後使用的墨水瓶。

इंक की शुरुआती बोतलों का प्रयोग अंशिक रूप से प्रिंट हेड को चार्ज करने के लिए किया जाएगा। हो सकता है कि बाद में प्रयुक्त इंक की बोतलों के मुकाबले इन बोतलों से कम पेज प्रिंट हों।

Хэвлэгчийн толгойг цэнэглэхэд анхны өгөгдсөн бэхний савыг оролцуулна. Эдгээр савтай бэхээр дараагийн бэхний савтай харьцуулахад цөөн хуудас хэвлэж магад.

1 2 3 4 5

Unpacking / 開箱 / खोलना / Задлах



Windows

Make sure you keep the accessory box for transportation.

請確保運輸時攜帶附件箱。



सुनिश्चित करें कि परिवहन के लिए आपने एक्सेसरी बॉक्स भी रखा है।

Тээвэрлэхэд зориулж дагалдах хэрэгслийн хайрцгийг хадгалахаа мартуузай.

Additional items may be included depending on the location. 視乎所處地區，可能隨附其他物品。



जगह के आधार पर और सामान लगाया जा सकता है।

Байршлаас шалтгаалан, нэмэлт зүйлс агуулагдсан байж болно.



1 2 3 4 5

Charging Ink / 墨水設定 / इंक भरना / Бэх цэнэглэх




Make sure that the color of the ink tank matches the ink color that you want to fill.

確定墨水槽的色彩與您要填充的墨水色彩匹配。

सुनिश्चित करें कि इंक टैंक का रंग, उस इंक के रंग से मेल खाता है, जिसे आप भरना चाहते हैं।

Бэхний савны өнгө нь таны дүүргэхийг хүсэж буй бэхний өнгөтэй таарч байгаа эсэхийг шалгаарай.



Remove the cap while keeping the ink bottle upright; otherwise ink may leak.

Use the ink bottles that came with your product.

Epson cannot guarantee the quality or reliability of non-genuine ink. The use of non-genuine ink may cause damage that is not covered by Epson's warranties.

保持墨水瓶直立，取下瓶蓋；否則墨水將洩漏。

使用產品隨附的墨水瓶。

Epson 不保證非原廠墨水的品質或可靠性。使用非原廠墨水可能導致 Epson 保固範圍內的損壞。

इंक की बोतल की कैप निकालते समय उसे सीधा रखें; अन्यथा इंक का रिसाव हो सकता है।

अपने उत्पाद के साथ आई इंक की बोतल का उपयोग करें।

Erpson, नकली इंक की गुणवत्ता या विश्वसनीयता की गारंटी नहीं दे सकता। नकली इंक का उपयोग करने से नुकसान हो सकता है जो Epson की वारंटी में शामिल नहीं है।

Бэхний бортогыг босоо байлгаж тагийг авна; эс тэгвээс, бэх асгарч болно.

Бүтээгдэхүүнтэй хамт ирсэн бэхний савыг хэрэглээрэй.


Erpson жинхэнэ бус хорны чанар ба найдвартай ажиллагаанд баталгаа гаргахгүй. Жинхэнэ бус бэхийг хэрэглэх нь Epson-ы баталгаанд үл хамрагдах гэмтэл учруулж болзошгүй.

Check the upper line in the ink tank.

檢查墨水槽的最高標線。

इंक टैंक की ऊपरी लाइन की जांच करें।

Бэхний сав дахь дээд шугамыг шалгана уу.





Insert the ink bottle straight into the port to fill ink to the upper line.

將墨水瓶徑直插入墨水填充口以填充墨水至最高標線。

इंक की बोतल को सीधे पोर्ट में डालें, ताकि इंक को ऊपर की लाइन तक भरा जा सके।

Бэхний савыг шууд портонд бэхэлж дээд шугам хүртэл дүүргэ.



When you insert the ink bottle into the filling port for the correct color, ink starts pouring and the flow stops automatically when the ink reaches the upper line.

If the ink does not start flowing into the tank, remove the ink bottle and reinsert it. However, do not remove and reinsert the ink bottle when the ink has reached the upper line; otherwise ink may leak.

Ink may remain in the bottle. The remaining ink can be used later.

Do not leave the ink bottle inserted; otherwise the bottle may be damaged or ink may leak.

將墨水瓶插入正確色彩的填充口時，墨水開始流入，並在墨水到達最高標線時自動停止流入。

如果墨水未開始流入大容量墨水槽，請取出墨水瓶並將其重新插入。然而，當墨水已達到最高標線時，請勿取出和重新插入墨水瓶，以防墨水漏出。

墨水可能留在墨水瓶內。剩餘的墨水可稍後使用。

請勿讓墨水瓶維持插入狀態；否則墨水瓶可能會損壞或墨水可能會漏出。

जब आप सही रंग के लिए फिलिंग पोर्ट में इंक की बोतल डालते हैं, तो इंक उसमें गिरना शुरू हो जाती है और जब इंक ऊपरी लाइन तक आ जाती है, तो उसका फ्लो अपने आप रुक जाता है।

अगर टैंक में इंक बहनी शुरू न हो, तो इंक की बोतल निकालकर उसे फिर से लगाएं। हालांकि, जब इंक ऊपरी लाइन तक पहुँच जाए, तो इंक बोतल को निकालें या फिर से न डालें; अन्यथा इंक का रिसाव हो सकता है।

इंक बोतल में बची रह सकती है। बची हुई इंक का उपयोग बाद में किया जा सकता है।

इंक की बोतल को डाल कर छोड़ें नहीं; अन्यथा बोतल क्षतियस्त हो सकती है या इंक टपक सकती है।

Бэх савыг зөв өнгөөр дүүргэх портонд оруулахад, бэх дээд шугаманд хүрсэн үед бэх асгарч хэлдэг бөгөөд урсгал нь автоматаар зогсдог.

Хэрэв бэх сав руу урсаж эхлэхгүй байвал, бэхний савыг салгаад буцааж хийж үзнэ үү. Гэсэн хэдий ч бэх дээд шугаманд хүрсэн үед бэхний савыг гаргах, дахин байрлуулж болохгүй; эс бөгөөс бэх урсаж магадгүй юм.

Бэх нь саванд үлдэж болно. Үлдсэн бэхийг дараа нь ашиглаж болно.







Бэхний савыг оруулахад орхиж болохгүй. Эс бөгөөс, сав гэмтэж эсвэл бэх гоожиж болно.

When the ink reaches the upper line of the tank, pull out the bottle.

當墨水達到墨水槽最高標線時，拔出墨水瓶。

जब इंक, टैंक की ऊपरी लाइन तक पहुँच जाती है, तो बोतल को बाहर निकाल लें।

Бэх савны дээд шугаманд хүрэхэд лонхыг сугалж ав.



Follow the on screen instructions.

依據畫面說明操作。

स्क्रीन पर दिए गए निर्देशों का पालन करें।


Дэлгэцэн дээрх зааварчилгааг дага.

When the message of seeing Start Here is displayed, press **Ⓞ** for 5 seconds.

顯示查看安裝說明的訊息時，請按下 **Ⓞ** 鍵 5 秒。

यहाँ आरंभ करें दिखने वाला संदेश प्रदर्शित होने के बाद, **Ⓞ** को 5 सेकंड तक दबाएं।

Энд эхлэх зурвас гарч ирсэн үед, **Ⓞ**-г 5 секунд дарна.




Follow the on screen instructions to start initialization. This takes about 11 minutes. Do not load paper until initialization is complete.

依據畫面說明開始初始化。這需要約 11 分鐘。初始化完成前，請勿裝入紙張。

आरंभ करने के लिए स्क्रीन पर दिए गए निर्देशों का पालन करें। इसमें लगभग 11 मिनट लगते हैं। जब तक इनीशियलाइजेशन पूरा नहीं हो जाता, पेपर लोड न करें।

Эхлүүлэлтийг эхлүүлэхийн тулд дэлгэцний зааварчилгааг дага. Энэ нь 11 минут орчим болно. Эхлүүлэлт дуусса хүртэл цаас бүү ачаал.




Make sure the printer cover is closed.

確保已合上印表機機蓋。

सुनिश्चित करें कि प्रिंटर का कवर बंद है।

Принтерийн тагийг хаасан эсэхийг шалга.



1 2 3 4 5

Checking Print Quality / 檢查列印品質 / प्रिंट गुणवत्ता को जांचना / Хэвлэх чанарыг шалгах

Follow the on screen instructions to perform a Nozzle Check and make adjustments. When the paper loading message is displayed, see step 2.

依據畫面說明執行噴嘴檢查並進行調整。當顯示紙張放入訊息時，請參考步驟 2。





नॉजल की जांच करने और समायोजन करने के लिए स्क्रीन पर दिए गए निर्देशों का पालन करें। जब पेपर लोड होने का संदेश प्रदर्शित हो, चरण 2 देखें।

Хошууг шалгахдаа дэлгэц дээрх зааврыг дагаж тохируулгыг хийнэ. Цаасыг ачаалах зурвас гарч ирэнгүүт алхмыг харна уу.

Print head cleaning uses some ink from the ink tank. 使用墨水槽中的一些墨水清理印字頭。

प्रिंट हेड की सफाई में इंक टैंक से कुछ इंक का उपयोग किया जाता है।

Хэвлэх толгойн цэвэрлэгэ нь бэхний савнаас зарим бэхийг ашигладаг.



A4x5

1 2 3 4 5

Fax Setup* / 傳真設定* / फैक्स सेटअप* / Факсын тохиргоо*

*: Only for ET-5170 Series and L6490 Series.

*: 僅適用於 ET-5170 系列和 L6490 系列。

*: सिर्फ ET-5170 सीरीज और L6490 सीरीज के लिए।

*: Зөвхөн ET-5170 ба L6490 загваруудад зориулав.

Follow the on screen instructions to make the fax settings. You can change these settings later. If you do not want to make settings now, close the fax settings screen and go to the next section.

依據畫面說明進行傳真設定。您可稍後變更這些設定。如果不想現在進行設定，請關閉傳真設定畫面並前往下一節。

फैक्स की सेटिंग करने के लिए स्क्रीन पर दिए गए निर्देशों का पालन करें। इसमें लगभग 11 मिनट लगते हैं। जब तक इनीशियलाइजेशन पूरा नहीं होता, पेपर लोड न करें।



Факсын тохируулгыг хийхийн тулд дэлгэцэн дээрх зааварчилгааг дага. Та эдгээр тохиргоог дараа хийж болно. Хэрэв та одоо тохиргоо хийхийг хүсэхгүй байвал факсын тохиргооны дэлгэцний хаан дараагийн хэсэгт оч.

Connect a phone cable.

連接電話線。

फोन केबल को कनेक्ट करें।

Гар утасны залгуурыг залгана уу.



Available phone cable	RJ-11 Phone Line / RJ-11 Telephone set connection
可用電話線	RJ-11 電話線纜 / RJ-11 電話機連接
फोन की उपलब्ध केबल	RJ-11 फोन लाइन / RJ-11 टेलीफोन सेट कनेक्शन
Ашиглаж болох утасны залгуур	RJ-11 Утасны шугам / RJ-11 Телефон утасны багц холболт

Depending on the area, a phone cable may be included with the printer, if so, use the cable. 視所在地區的不同，印表機可能附帶電話線。若有隨附，請使用此電話線。

जगह पर निर्भर करते हुए, प्रिंटर के साथ फोन केबल को शामिल किया जा सकता है, यदि ऐसा है, तो केबल का उपयोग करें।


Таны байгаа бүсээс хамааран принтертэй хамт гар утасны кабель залгуур дагалдаж болно, хэрэв тийм бол кабель залгуурыг ашиглана уу.

If you want to share the same phone line as your telephone, remove the cap and then connect the telephone to the EXT. port.

如果想要與電話共用一條電話線，請取下覆蓋並將電話連接至 EXT. 連接埠。

यदि आप अपने टेलीफोन वाली फोन लाइन को ही साझा करना चाहते हैं, तो टक्कन को खोलें और फिर टेलीफोन को EXT. पोर्ट से जोड़ें।

Хэрэв та өөрийн телефон утасны ашигладаг утасны шугамыг хуваалцахыг хүсвэл тагийг аван, телефон утсаа EXT. портод залгана уу.



1 2 3 4 5

**Connecting to Devices /
 連接裝置 /
 डिवाइसों से कनेक्ट होना /
 Төхөөрөмжүүдтэй холбогдох**



Visit the website to install software and configure the network. Windows users can also install software and configure the network using the CD supplied.

請瀏覽網站，以安裝軟體及設定網路。Windows 使用者亦可透過隨附光碟安裝軟體及執行網路設定。

सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने और नेटवर्क कॉन्फिगर करने के लिए वेबसाइट पर जाएँ। Windows उपयोगकर्ता दी गई CD का उपयोग करके सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं और नेटवर्क को कॉन्फिगर कर सकते हैं।

Вэбсайт руу орж, програм хангамжийг суулгаад сүлжээг тохируулна уу. Windows-н хэрэглэгчид нийлүүлсэн CD-г ашиглан програм хангамжийг суулгаж, сүлжээг тохируулах боломжтой.

**How to Use /
 如何使用 /
 उपयोग विधि /
 Хэрхэн ашиглах вэ**

**Ink Bottle Codes / 墨水瓶編碼 /
 इंक बोतल कोड / Бэхний савны кодууд**

For Europe / 對於歐洲 / यूरोप के लिए / Европ бол

	BK	C	M	Y
ET-5170 Series ET-5150 Series			113	
L6490 Series L6460 Series			112	

For Australia and New Zealand

	BK	C	M	Y
			542	


For Asian countries except for China / 對於除中國以外的亞洲國家 / चीन को छोड़कर एशियाई देशों के लिए / Хятад улсаас бусад Азийн орны хувьд

	BK	C	M	Y
			008	

! Use of genuine Epson ink other than the specified ink could cause damage that is not covered by Epson's warranties.
 若使用指定墨水以外的 Epson 原廠墨水，可能導致不在 Epson 保固範圍內的損壞。

Epson की असली इंक के बजाय दूसरी इंक का इस्तेमाल करने से नुकसान हो सकता है जो Epson की वारंटी के तहत कवर नहीं होगा।
 Epson-н жинхэнэ бэхнээс өөр бэх ашиглавал эвдрэл гэмтэл учруулах бөгөөд үүнийг Epson-н баталгаанд хамрахгүй.


**Copying / 正在複印 /
 प्रति बनाना / Хуулах**



1 Select Copy. 選擇複印。
प्रतिलिपि बनाएँ का चयन करें।
Хувилах сонгоно.

5 Make other settings as necessary. 根據需要進行其他設定。
 आवश्यकतानुसार अन्य सेटिंग्स करें।
 Шаардлагатай бол бусад тохиргоог хий.

6 Select ◊. 選擇 ◊。
 ◊ का चयन करें।
 ◊-г сонгоно.




3 Select Copy. 選擇複印。
प्रतिलिपि बनाएँ का चयन करें।
Хувилах сонгоно.

5 Make other settings as necessary. 根據需要進行其他設定。
 आवश्यकतानुसार अन्य सेटिंग्स करें।
 Шаардлагатай бол бусад тохиргоог хий.

6 Select ◊. 選擇 ◊。
 ◊ का चयन करें।
 ◊-г сонгоно.

**Guide to Control Panel /
 控制面板說明 /
 कंट्रोल पैनल की मार्गदर्शिका /
 Хянах самбарын заавар**



	Turns the printer on or off. 開啟或關閉印表機的電源。 प्रिंटर को चालू या बंद करता है। Принтерийг асааж, унтраана.
	Displays the home screen. 顯示主畫面。 होम स्क्रीन प्रदर्शित करता है। Нүүр дэлгэцийг харуулна.
	Displays the solutions when you are in trouble. 在您遇到問題時顯示解決方法。 जब आप परेशानी में होते हैं तो समाधान प्रदर्शित करता है। Таныг асуудалтай тулгарахад шийдлийг харуулна.
	*: Only for ET-5170 Series and L6490 Series. *: 僅適用於 ET-5170 系列和 L6490 系列。 *: सिर्फ ET-5170 सीरीज और L6490 सीरीज के लिए *: Зөвхөн ET-5170 ба L6490 загваруудад зориулав. Turns on when received documents that have not yet been read, printed, or saved, are stored in the printer's memory. 在接收的文件尚未被讀取、列印或儲存並被保存於印表機記憶體內時開啟。 जब मिले हुए दस्तावेज पढ़े बिना, प्रिंट किए बिना या सहेजे बिना ही प्रिंटर की मेमोरी में स्टोर हो जाते हैं, तब यह चालू होता है। Уншигдаагүй, хэвлэгдээгүй, хадгалагдаагүй баримт бичиг хүлээн авсан үед принтерийн санах ойд хадгална.

A message is displayed on the LCD screen if there is an error or information that requires your attention. See the *User's Guide* for more details.
 如果出現錯誤或需要您注意的資訊，LCD 螢幕上會顯示一條訊息。若需更多詳細資訊，請參考進階使用說明。

यदि ऐसी कोई वृत्ति या जानकारी होती है जिस पर आपका ध्यान देना आवश्यक हो तो LCD स्क्रीन पर संदेश प्रदर्शित होता है। और जानकारी के लिए उपयोगकर्ता गाइड देखें।

Алдаа юуму таны анхаарал хандуулах шаардлагатай мэдээлэл байвал LCD дэлгэцэн дээр зурвасыг харуулна. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг Хэрэглэгчийн Заавар-аас үзнэ үү.

**Refilling Ink / 填充墨水 /
 इंक को रिफिल करना /
 Бэх дахин цэнэглэх**

To confirm the actual ink remaining, visually check the ink levels in all of the printer's tanks.
 若要確認實際的剩餘墨水，請目視檢查印表機的所有大容量墨水槽的墨水。

यह पुष्टि करने के लिए कि असल में कितनी इंक शेष है, प्रिंटर के सभी टैंकों में देख कर इंक के स्तर की जांच करें।

Хэр их бэх үлдсэнийг баталгаажуулахын тулд принтерийн бэхний бүх саван дахь бэхний түвшинг харж салгана.




1 Select Maintenance > Reset ink level. 選擇維護 > 重置墨水。
रखरखाव > स्थायी स्तर रीसेट करें चुनें।
Арчилгаа > Бэхний Түвшинг Тэглэх сонгоно.

2 Follow the instructions on the screen to refill the ink. 依據畫面上的說明填充墨水。
 इंक को रिफिल करने के लिए स्क्रीन पर दिए निर्देशों का पालन करें।
 Дэлгэц дээрх зааврыг дагаж бэхийг дахин дүүргэнэ.



! Ink flow stops automatically when the ink level reaches the upper line.
 當墨水存量達到最高標示線時，墨水即會自動停止流入。
 इंक का स्तर ऊपरी लाइन तक पहुंचने पर इंक का प्रवाह स्वतः बंद हो जाता है।
 Бэхний түвшин дээд зураасанд хүрэхэд бэхний урсгал автоматаар зогсоно.

**Clearing Paper Jam / 清除夾紙 /
 पेपर जाम हटाना / Цаас гацалтыг
 арилгах**



**Printer cover / 印表機護蓋 /
 प्रिंटर कवर / Принтерийн таг**







**Front cover / 前方護蓋 /
 आगे का कवर / Урд таг**










**Rear cover / 後方護蓋 /
 पीछे का कवर / Арын таг**



**ADF / ADF /
 ADF / ADF**



**Transporting and Storing the Printer /
 搬運和儲存印表機 /
 प्रिंटर का संग्रहण और परिवहन /
 Принтерийг тээвэрлэх ба хадгалах**



! Be sure to keep the ink bottle upright when tightening the cap. Place the printer and the bottle in a plastic bag separately and keep the printer level as you store and transport it. Otherwise ink may leak.
 After you move it, remove the tape securing the print head. If you notice a decline in print quality, run a cleaning cycle or align the print head.

務必在鎖緊瓶蓋時使墨水瓶保持直立。將印表機和墨水瓶分別放入袋中。存放及搬運時，請使印表機保持在水平的狀態，否則墨水可能會滲出。
 搬至地點後，請撕下固定印字頭的膠帶。若您發現列印品質降低，請清潔或校正印字頭。

मुनिचित करें कि कैप को टाइट करते समय इंक बोतल सीधी रखें। प्रिंटर का संग्रहण और परिवहन करते समय प्रिंटर और बोतल को प्लास्टिक बैग में अलग से रखें और प्रिंटर को लेवल में रखें। अन्यथा इंक का रिसाव हो सकता है।
 इसे स्थानांतरित करने के बाद, प्रिंट हेड को सुरक्षित रखने वाली टेप निकाल दें। यदि आपको प्रिंट की गुणवत्ता में कोई कमी दिखाई देती है, तो क्लीनिंग साइकल चलाएँ या प्रिंट हेड को संरेखित करें।

Тагийг чангалж байх үедээ бэхний бортогыг босоо байлгаарай. Принтер болон бортогыг гялгар уутанд тусда нь байлгаж, принтерийг хадгалах болон тээвэрлэх үедээ принтерийн түвшинг хэвээр хадгалах. Цохивол, бэх асгарч болно.
 Зөөвөрлөсний дараа хэвлэх толгойг тагласан туузгыг авна. Хэрвээ хэвлэлтийн чанар муудаж байгааг анзаарвал цэвэрлэгээний циклийг ажиллуулж, хэвлэх толгойг тэгшитгээрэй.

**Information for Users in Taiwan Only /
 此資訊僅適用於台灣地區**

- 產品名稱：多功能印表機
 - 額定電壓：AC 100-240 V
 - 額定頻率：50-60 Hz
 - 耗電量：
- L6490**
 單機複印時：約 12 W
 就緒模式：約 5.4 W
 睡眠模式：約 0.9 W
 關機模式：約 0.2 W
- L6460**
 單機複印時：約 12 W
 就緒模式：約 5.3 W
 睡眠模式：約 0.9 W
 關機模式：約 0.2 W

□ 額定電流：0.5-0.2 A
 製造年份、製造號碼和生產國別：見機體標示

警告
 檢修本產品之前，請先拔掉本產品的電源線。

功能規格
 □ 列印方式：微點壓電噴墨技術
 □ 解析度：最大可達 1200 × 2400 dpi
 □ 適用系統：
 Windows Vista*, Windows* 7, Windows 8/8.1, Windows 10以上版本(32-bit, 64-bit)
 Windows XP SP3(32-bit)
 Windows XP Professional x64 Edition SP2
 Windows Server* 2003(SP2)以上版本*
 (* 僅限印表機驅動程式與掃描器驅動程式。)
 Mac OS X 10.6.8以上版本

使用方法
 見內附相關說明文件

緊急處理方法
 發生下列狀況時，請先拔下印表機的電源線並洽詢Epson授權服務中心：
 □ 電源線或插頭損壞
 □ 有液體噴濺到印表機
 □ 印表機搖落或機殼損壞
 □ 印表機無法正常操作或是列印品質與原來有明顯落差

製造商：SEIKO EPSON CORPORATION
地址：3-5, Owa 3-chome, Suwa-shi, Nagano-ken 392-8502 Japan
電話：81-266-52-3131

進口商：台灣愛普生科技股份有限公司
地址：台北市信義區松仁路 100 號 15 樓
電話：(02) 8786-6688 (代表號)

注意事項
 □ 只能使用印表機機標上所註明的電源規格。
 □ 請保持工作場所的通風良好。

「限用物質含有情況」標示內容，請至下列網址查詢。
 URL: http://www.epson.com.tw/TW_RoHS

NCC警告
 低功率電波輻射性電機管理辦法
 第十二條
 經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。
 第十四條
 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

This guide includes basic information about your product and troubleshooting tips. See the *User's Guide* (digital manual) for more details. You can obtain the latest versions of guides from the following website.
 本指南包含產品基本資訊和故障排除提示。若需更多詳細資訊，請參考進階使用說明（數位手冊）。您可以從下列網站取得最新版本的指南。

इस मार्गदर्शिका में आपके उत्पाद और समस्या निवारण युक्तियों के बारे में मूल जानकारी शामिल होती है। और जानकारी के लिए उपयोगकर्ता गाइड (डिजिटल मैन्युअल) देखें। आप इस वेबसाइट से मार्गदर्शिका का नवीनतम संस्करण प्राप्त कर सकते हैं।

Энэ гарын авлага нь таны бүтээгдэхүүний тухай үндсэн мэдээлэл болон алдааг олж засварлах зөвлөмжүүд агуулдаг. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг Хэрэглэгчийн Заавар (дигитал гарын авлага)-аас үзнэ үү. Та дараах вебсайтаас гарыг авлагын хамгийн сүүлийн хувилбаруудыг авах боломжтой.

For outside Europe / 對於歐洲以外 / यूरोप से बाहर के लिए / Европоос өөр газар бол
<http://support.epson.net/>

For Europe / 對於歐洲 / यूरोप के लिए / Европ бол
<http://www.epson.eu/support>

Windows* is a registered trademark of Microsoft Corporation.
 Maschinenlärminformations-Verordnung 3. GPSGV: Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 dB(A) oder weniger gemäß EN ISO 7779.

Das Gerät ist nicht für die Benutzung im unmittelbaren Gesichtsfeld am Bildschirmarbeitsplatz vorgesehen. Um störende Reflexionen am Bildschirmarbeitsplatz zu vermeiden, darf dieses Produkt nicht im unmittelbaren Gesichtsfeld platziert werden.

Обладнання відповідає вимогам Технічного регламенту обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні.

Для пользователей из России срок службы: 5 лет.
 AEEE Yönetmeliğine Uygundur.

Ürünün Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca tespit ve ilan edilen kullanma ömrü 5 yıldır.
 Tüketicilerin şikayet ve itirazları konusundaaki başvuruuları tüketici mahkemelerine ve tüketici hakem heyetlerine yapılabilir.

Üretici: SEIKO EPSON CORPORATION
 Adres: 3-5, Owa 3-chome, Suwa-shi, Nagano-ken 392-8502 Japan
 Tel: 81-266-52-3131
 Web: http://www.epson.com/

The contents of this manual and the specifications of this product are subject to change without notice.

